

#IndiaGetsReading
***Campaign
Newsletter***

August 15 – September 8, 2023

Teachers As
**CHANGE
MAKERS**

COUNTRY DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Friends,

We are delighted to share the success of our Annual Flagship #IndiaGetsReading campaign 5.0, centered around the theme “**Teachers as Changemakers.**” This year’s campaign was a true ode to our teachers, where we not just highlighted their pivotal role in shaping the minds of children, but also the challenges they brave to break, thereby crafting unique learning experiences, often in under-resourced schools. The Teachers as Changemakers campaign spanning across our 10 intervention states garnered support from diverse stakeholders, including community members, government officials, donors, like-minded organizations, and individuals who resonated with the cause, engaging a total of 41,187 teachers and 466,252 students.

Unique initiatives across our intervention states added to the campaign’s success. While Rajasthan grabbed attention for the popular Camel Cart Library initiative, In Karnataka we had Kalajatha - a popular local street play- depicting the importance of teachers in a children’s life and a special rally was hosted in Telangana where 6,200 students participate to raise awareness. Similarly, there were diverse yet unique on-ground activations across all our states.

One of the crowning achievements of the campaign was the Read-a-thon activity where we brought together an extraordinary **659,770** participants on September 1, 2023, across 5,909 schools pan India to read simultaneously for 30 minutes. This record-breaking initiative boldly declared that reading and learning can take place anywhere with determination.

It gives me immense joy to confidently say that through this year’s #IndiaGetsReading campaign, we made a dedicated effort of turning the belief #TeachersAsChangemakers into a powerful reality.

Happy Reading!

Warm regards,

Poornima Garg
Country Director
Room to Read India




CAMPAIGN OVERVIEW

Room to Read India's Annual India Gets Reading Campaign, goes beyond the realm of books and classrooms. It's a vibrant movement that brings communities, teachers, students and other stakeholders together, celebrates the exceptional educators in our classrooms, and lays the groundwork for a brighter future by harnessing the magic of storytelling and the boundless power of education. Throughout this campaign, we introduced a series of initiatives that underscored the significance of reading and aimed to enhance awareness of the work done under foundational literacy skills in children.

This year's theme, "**Teachers as Changemakers**," eloquently underscores the extraordinary impact of educators who transcend societal confines to mold young minds. Within the context of the 5th #IndiaGetsReading campaign, we praise teachers as genuine changemakers, gracefully overcoming challenges inherent in schools across India. Despite facing various obstacles, their steadfast dedication not only instills a passion for reading and learning but also showcases remarkable resilience, creativity, and unwavering commitment. Let's explore how the Reading campaign unfolded, spotlighting teachers as changemakers in action.



OUR INFLUENCE



People reached
offline

5,28,973



States
10



Teachers
40,597



Children
4,59,322



Community Members
26,519



Govt. Officials
2,535

Key Activities

- Dear Teacher, what's your story? (Online activity)
- My teacher taught me (Online Activity)
- I am teacher because (Online Activity)
- Testimonials: A source of encouragement (Online Activity)
- Pledge Reading time (Online Activity)
- Teachers Day Celebration (Online + Offline Activity)
- Camel Cart Library (Offline Activity)
- Teacher Expo (Offline activity)
- National Seminar: Culminating Event (Offline Activity)



OUR OFFLINE INITIATIVES ACROSS STATES



In **Chhattisgarh, Jharkhand, Telangana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh**, we celebrated the launch of our state-of-the-art Mobile Van Library! It's not just any library; it's a rolling wonder on wheels. Inside, it's packed with an enchanting collection of children's tales, tailor-made for young minds aged 5 to 12. Through this initiative we reached more than 22,000 stakeholders.

In **Chhattisgarh**, we have also had the innovative "Teacher Expo". This unique initiative provided teachers with the opportunity to showcase their inventive teaching techniques, fostering a collaborative environment for knowledge-sharing and professional development.

In **Delhi**, we hosted a successful Reading Mela across 50 govt. schools in our ongoing efforts to promote literacy and community engagement. At the heart of this campaign were parents and the community, whose active participation and support played a pivotal role in making the Reading Mela a resounding success. This collaboration allowed us to extend our reach and make an even larger impact, emphasizing our commitment to fostering a love for reading and learning within communities. The Municipal Corporation Delhi and Room to Read jointly celebrated "Teachers Day Week" in all 1,535 schools of Delhi, highlighting this year's theme..

In **Maharashtra**, the IndiaGetsReading campaign was inaugurated by the Deputy Director of SCERT (State Council of Educational Research and Training), with the aim to foster significant interest and enthusiasm around the importance of reading in the lives of students, ensuring a positive impact on their educational journey.

In **Rajasthan**, a pioneering initiative took shape in the form of a Camel Cart Library, inaugurated by the Joint Director of the Department of Education, Jodhpur. This unique library served as an educational tool, engaging students, communities, and locals to underscore the importance of literacy. This year Teacher's Day was celebrated with school staff and children under the theme "Teachers as Change Makers," and awareness rallies were organized in respective school villages, involving 679 students, teachers, School Management Committee (SMC) members, and community members.. At the school level, a pledge reading activity saw enthusiastic participation from 1,088 students and 68 teachers.

In **Telangana**, our focus was on involving parents in a meaningful way and they were encouraged to read stories or share their childhood tales with school kids. Pledge reading time activity was hosted across 120 schools in the state. This unique reading initiative experience helped foster a bond between the community and the students. Additionally, rallies were organized in 3 districts between 16th August to 7th September in 81 govt. schools, Approximately 6,200 children took part, marching through village streets with compelling slogans like 'Teachers are the change makers.' The message was conveyed through handouts and vibrant charts, creating an impactful celebration of education and the influential role of teachers.

In **Uttar Pradesh**, catchy jingles amplified the message of our mission for a world where literacy shines bright and love for reading is shared .

Uttarakhand hosted some remarkable storytelling sessions. They made use of books from Literacy Cloud, and they ensured that no one was left out. These engaging events featured captivating narratives sourced from the Literacy Cloud, ensuring exclusivity by making certain that everyone had the opportunity to participate.

In **Karnataka**, the profound impact of teachers on students was vividly portrayed through Kalajatha, a local street play form, in which the team actively participated. Additionally, students organized rallies on the streets, involving approximately 801 participants who conveyed the message "Teachers are the change makers" through slogans, handouts, charts, banners, and other creative means.



Read-a-thon - *Drop Everything and Read* *We Set a New Record*

Read-a-thon, a celebration of literature and collective reading, witnessed remarkable participation this year!!

From last year's record of 173,844 participants, this year we raised the bar multifold bringing together 659,700 participants across 10 states!!


For half an hour from 11 AM to 11:30 AM on September 1, our stakeholders dropped everything to just read!




OUR INFLUENCE ACROSS STATES




RAJASTHAN




UTTARAKHAND




MADHYA PRADESH



MAHARASHTRA




KARNATAKA






DELHI




UTTAR PRADESH




JHARKHAND



TELANGANA



CHHATTISGARH



Children Reached



Teachers Engaged



Community Members Engaged



Govt. Officials Supporting the Campaign



पर
जन

मानव अधूरा

प्रतिनिधि प्रधान जगिंद व अमिता भट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त से 8 सितंबर तक पढ़ना जहाँ समानता वहाँ धीम आधारित शिक्षकों, बच्चों, व समुदाय को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु रेली, कहानी सुनाना, चित्रकला, कहानी बनाना, बाल गीत, व खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।



अजय भट्टी फरी उपखंड क्षेत्र की सराईडा ग्राम पंचायत पर संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में क्षेत्र में शिक्षा को अलग जमाने के उद्देश्य को लेकर रीडिंग कैम्पेन का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम को संचालित करने हुए विद्यालय के कर्मचारी लाल सेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। इस रीडिंग कैम्पेन को संचालित करने के लिए प्रेरित करने हेतु रेली, कहानी सुनाना, चित्रकला, कहानी बनाना, बाल गीत, व खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।



शिक्षा के बिना मानव अधूरा है: कन्हैया लाल

न्यूज सर्विस/नवज्योति, फरसी। क्षेत्र की सराईडा ग्राम पंचायत मुख्यालय में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को शिक्षा को अलग जमाने के उद्देश्य को लेकर रीडिंग कैम्पेन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में संचालित करने वाले कन्हैया लाल सेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। इस रीडिंग कैम्पेन को संचालित करने के लिए प्रेरित करने हेतु रेली, कहानी सुनाना, चित्रकला, कहानी बनाना, बाल गीत, व खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।



इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य छगन लाल जाट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिनी और विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।

छात्रसंघ प्रधान को लेकर बैठक संपन्न

रीडिंग कैम्पेन का जोधपुर में आगाज



जमी लकी को पढ़ने का अवसर देंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने की आदत के विकास का लक्ष्य बढ़ाएँ। इस रीडिंग कैम्पेन को संचालित करने वाले कन्हैया लाल सेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। इस रीडिंग कैम्पेन को संचालित करने के लिए प्रेरित करने हेतु रेली, कहानी सुनाना, चित्रकला, कहानी बनाना, बाल गीत, व खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

शिक्षा के बिना मानव अधूरा व मुकवधिर है- प्रधानाचार्य सेन, विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया छात्र छात्राओं ने भाग



फरी अंग भास्कर ब्यूरो। उपखंड क्षेत्र की सराईडा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को क्षेत्र में शिक्षा को अलग जमाने के उद्देश्य को लेकर रीडिंग कैम्पेन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में संचालित करने वाले कन्हैया लाल सेन ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। इस रीडिंग कैम्पेन को संचालित करने के लिए प्रेरित करने हेतु रेली, कहानी सुनाना, चित्रकला, कहानी बनाना, बाल गीत, व खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सॉनियर अधिकारी अजय सिंह राठौड़, शिवकांत सिंह, सेवानिवृत्त सहयोगिनी, विद्यालय के शिक्षक गणपथ, समारोहों में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

Few of the media outlets that featured our campaign

International and national media coverage

- [Business Standard](#)
- [The Print](#)
- [The Asian Chronicle](#)
- [New Delhi Times](#)
- [The Hans India](#)
- [Hamara Samachar](#)
- [Washington DC Despatch](#)
- [US World Today](#)
- [London Channel News](#)
- [Daily Hunt](#)
- [Zee 5](#)
- [Birmingham All News Network](#)
- [Dubai City Reporter](#)
- [Bizz Stories](#)
- [Rashtra Baan](#)
- [Investment Guru](#)
- [White House News](#)
- and many more.....

Regional media coverage


- [Pioneer](#)
- [Humaara Samaaj](#)
- [Dainik Bhaskar](#)
- [Hindustan Express](#)
- [Rajasthan Patrika](#)
- [Rashtriya Sahara](#)
- [Hindustan](#)
- [Chennai Patrika](#)
- [Andhra Prabha](#)
- [Telangana Today](#)
- [Awadhnama](#)
- [DNA](#)
- [Hari Bhoomi](#)
- [Rashtriya Pahar](#)
- [Gorkha Sandesh](#)
- [The Hawk](#)
- [Aziz Tanzim](#)
- [Pyari Urdu](#)
- [Prathak Chhattisgarh](#)
- and many more.....



 C 21 Qutub Institutional Area,
Block C, New Delhi 110016

 info.india@roomtoread.org

 www.roomtoreadindia.org

 +91 11 46664999

